



**\*1-घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाइन्स:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2022 को वादी निवासी थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली गलौज कर, मारपीट करना तथा वादी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-734/2022 धारा -147,452,323,504,354 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 08.09.2022 को उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना सिविल लाइन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त अजरुद्धीन उर्फ काले पुत्र जाफिर निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**\*2-नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाइन्स:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2022 को वादी निवासी थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग भान्जी का स्कूल व कोचिंग जाते समय पीछा करना, धमकी देना तथा डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-752/2022 धारा-354डी(2),376,506 भादवि व 3/4,7/8,16/17 पोस्को एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 08.09.2022 को निरीक्षक उदयवीर सिंह द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त प्रशान्त शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी शिव बिहार कालोनी थाना नागफनी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**\*3-नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाइन्स:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2022 को वादी निवासी थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-698/2022 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 08.09.2022 को उ0नि0 सोनू कुमार थाना सिविल लाइन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त अमन पुत्र स्व0 महावीर सिंह निवासी अम्बेडकर कालोनी हरथला सोनकपुर थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**\*4-गौवंशीय पशु को वध करने ले जाते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना मूढापाण्डे:-\***

अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.09.2022 को उ0नि0 प्रमोद कुमार नेहवाल द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-फारुद्धीन पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम मातीपुर थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद 2-अजीम पुत्र बच्छन निवासी ग्राम मातीपुर थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद को गोवंशीय पशु का वध करने के लिये ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 गौवंशीय पशु, 02 छुरी, 01 कुल्हाड़ी, 01 लकड़ी का गुटका, 01 सूजा बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0-253/22 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**\*5-स्मैक के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना सिविल लाइन्स:-\***

अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.09.2022 को उ0नि0 राशिद अली थाना सिविल लाइन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1- सीमा पत्नि सूरज निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद को 05 ग्राम स्मैक व 950 रुपये 2-जयवीर पुत्र जशवन्त उर्फ बीस सालियर निवासी आदर्श कालोनी, मुरादाबाद को 07 ग्राम स्मैक तथा 850 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सिविल लाइन्स पर क्रमशः मु0अ0सं0 758, 759/2022 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।